

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-26022020-216400
SG-DL-E-26022020-216400

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 30]	दिल्ली, सोमवार, फरवरी 24, 2020/फाल्गुन 5, 1941	[रा.रा.क्षे.दि.सं. 390
No. 30]	DELHI, MONDAY, FEBRUARY 24, 2020/PHALGUNA 5, 1941	[N.C.T.D. No. 390

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गुरु गोबिन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय
अधिसूचना

दिल्ली, 24 फरवरी, 2020

एफ.सं. जीजीएसआईपीयू/को-आर्ड/स्टैट्यूट 24/एमेन्ड./बीओएम-68/2019-20/583.—
गुरु गोबिन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1998 (1998 का 9) की धारा 26 की उपधारा (2) के प्रावधानों के अनुपालन में गुरु गोबिन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय का प्रबन्ध मंडल, कुलाधिपति की स्वीकृति से, संविधि-24 के उपखण्ड 3(ii)(ए), जिसका भीर्शक है, 'वे परिस्थितियाँ जिनके अन्तर्गत महाविद्यालयों और संस्थानों को विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों में सम्मिलित किया जा सकता है और वे परिस्थितियाँ जिनके अन्तर्गत ऐसे विशेषाधिकारों को वापिस लिया जा सकता है' और जो अधिसूचना सं. एफ. 1(6)(4)/99-2000/ऐस्ट./दिनांक 16/02/2000 के द्वारा अधिसूचित किया गया था, में निम्न आंशिक आशोधन करता है ।

विद्यमान प्रावधान	संशोधित प्रावधान
इसका संचालन सरकार, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, किसी सक्षम स्थानीय प्राधिकरण, और सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1860 के 21) के अन्तर्गत पंजीकृत किसी सोसायटी अथवा	इसका संचालन सरकार, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, किसी सक्षम स्थानीय प्राधिकरण, और सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1860 के 21) के अन्तर्गत पंजीकृत किसी सोसायटी अथवा तत्समय

तत्समय प्रभावी किसी कानून के अन्तर्गत गठित किसी सार्वजनिक निकाय द्वारा किया जाता हो ।	प्रभावी किसी कानून के अन्तर्गत गठित किसी सार्वजनिक निकाय अथवा तत्कालीन कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अन्तर्गत या कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 8, जैसा भी मामला हो, के अन्तर्गत निगमित किसी भी कम्पनी द्वारा किया जाता हो ।
---	---

उपरोक्त आशोधन, विश्वविद्यालय के प्रबंध मंडल द्वारा दी गयी स्वीकृति की तिथि, अर्थात् 05/04/2019 से ही प्रभावी होंगे ।

आदेशानुसार
रवि दाधीच, कुल सचिव

GURU GOBIND SINGH INDRAPRASTHA UNIVERSITY

NOTIFICATION

Delhi, the 24th February, 2020

F.No. GGSIPU/Co-ord/Statute 24/Amend./BOM-68/2019-20/583.—In pursuance of provisions of sub-section (2) of Section 26 of the Guru Gobind Singh Indraprastha University Act, 1998 (9 of 1998), the Board of Management of Guru Gobind Singh Indraprastha University, with the approval of the Chancellor, makes the following partial amendment in sub clause 3(ii)(a) of Statute-24 captioned 'Conditions under which Colleges and Institutions may be admitted to the Privileges of the University and the conditions under which such privileges may be withdrawn', notified *vide* Notification No. F.1(6)(4)/99-2000/Estt./Dated 16.02.2000.

Existing Provision	Amended Provision
It is run by the Government, the Central Government, a State Government, a competent local authority, a society registered under the Societies Registration Act 1860 (21 of 1860) or a public trust constituted under any law for the time being in force.	It is run by the Government, the Central Government, a State Government, a competent local authority, a society registered under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860) or a public trust constituted under any law for the time being in force or a Company incorporated under Section 25 of the then Companies Act, 1956 or under Section 8 of the Companies Act, 2013, as the case may be.

The above amendments shall come into force with effect from the date of approval of the Board of Management of the University, *i.e.*, 05.04.2019.

By Order,
RAVI DADHICH, Registrar